

DHANVANTRI HOSPITAL

(A Unit of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.)

Number One, Saket, Meerut, 250003 (UP) INDIA Ph. 0121-2648151-52, 2651801 Fax : 2651803 E-mail : dhanvantrihospital@gmail.com | Website : www.djrl.org.in

To, The BSE Limited Phiroza Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai – 400 001

Dear Sir,

<u>Sub: Newspaper Clipping of Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2020</u>

Ref: Scrip Code: 531043

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2020, published in Newspaper, Jansatta (Hindi Edition) and Financial Express (English Edition) on 29th August 2020.

A copy of newspaper is enclosed for your reference.

(0121) 2648151 2648152

This is for your Information and record.

Thanking you

For Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.

(RRIYA GUPTA)

Company Secretary & Compliance Officer

Mem.No.: A53595

Date: 29.08.2020 Place: Meerut ansal API CIN L45101DL1967PLC004759

Regd. Off: 115, Ansal Bhawan, 16, K G Marg, New Delhi - 110001 Mob.: +91-9871053419, Tel: 011-23353550, 66302268-72, Website: www.ansalapi.com, E-mail id: shareholderservice@ansalapi.com **NOTICE**

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means In accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated the

12th May, 2020 and circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC / OAVM and the Notice convening the 53rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository Participant/ Depository. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will be available o

the website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents will also be available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') i.e. https://instavote.linkintime.co.in. The Board of Directors of the Company have not recommended any dividend for the financia

Manner of getting e-mail registered- to receive notice of AGM and Annual Report 2019-20

i. Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution i required) at shareholderservice@ansalapi.com or to Link Intime India Private Ltd (LIIPL) at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update e-mai address thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/her

Casting vote by members through remote e-voting/e-voting system during the AGM Members of the Company who are holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company as well as members who have not updated their e-mail address with the Depository Participant may obtain the login id and password for casting their vote (by logging on to LIIPL's e-voting System https:/ instavote.linkintime.co.in) through remote e-voting/ e-voting system during the AGM by following the instructions mentioned in the notes to the Notice of the 53 rd AGM. For Ansal Properties & Infrastructure Ltd

Abdul Sami

Place: New Delhi Date : 28th August, 2020 **General Manager (Corporate Affairs)** and Company Secretary Membership No. FCS 7135



Ph: 0512-2691210-11; Fax: 0512-2691214 E-mail: emaindia.cv@gmail.com; Website: www.elltd.info CIN No.: L27201UP1971PLC003408

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE the arrangement that the 40° housest thousand Mayerian (*14000*), of the MA baths Limited will be held on Freder, 19th Sentenber, 2020 at 11 50 A.M. through Vide

Confirming (VC) / Other Audio Visual Mases (OAVW), is compliance with the applicable remissions of the Companies Act. 2013 (the Act) and read with General Circular issued by MCA and the HEBBLEODER: Regulations, 2015, increment the basisses or set out in the Notice of the PF AGM. be pursuance of MCA Circulars and SERI Circular, notice of AGM and the Annual Report of the Company for the Sauncial year 2003-25 keep book mailed electronically on Friday, 28° August, 2020 o those members whose e-mail addresses are registered with the Computer or the depositorie perioperts. These discusses are also available on the Company's website a

executibilities and on the websites of the Stock Rockargo io. (RSE Limited at wave business, com expects yely. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Securities (Italia Asper Kegulation 44 of the NESI (LODG) Regulations, 2015 and Section 100 of the Act, 2015 ad with Rain 20 of The Companion (Managaranat and Administration) Ratos, 2014, as actualed an applicable provision of \$5-2 on general meeting, the Company is pre-licing remote e-voting facility to (it) Members to cost their voice on all resolutions in respect of the humanous in be transacted at the

6º AGM. Additionally, the Company is generaling the facility of voting flurings in voting system during the AGNI ("o-noting"). The Company has organized the services of CDSL as the Authorised Agency t rewide the e-voting fundry. Members will be provided with a facility is amend the ACM through W. DWM by logging in on the website in announcing mhalling of CDSL. Altersaively, Mersby restauration CDSC v. EASE SASIEST promises, carried to at Exp. Percentillada part from Legal Mygari by using their login credensuls.

the detail to pursuant to the provisions of the Act, 2013 and the solid Robes are given here and ex-Date of completion of disputable fraction by great Finday, 28" August, 2221 Data and time of companionment of neutric-voting: Tourstay, 22" September, 2009;09:08 A.M.

and end of remote e-vering: Thursday, 24" September, 2020 (3.00 P.M.), Harrow E-vering b electronic mede will not be allowed beyond 5:00 FM, on Thursday, 24" September, 2020. All morehors, selected names appear in the Register of Mearthers / Buruficial owners as on the car off-date i.e. Friday, 187 September, 2009 are cligible for a rading the remote/e-vestag facility. The facility for e-voting shall also be raide available to the receibers participating in the AUM through VEXAVM and remediers, who have not cast their vote by remote Evening, shell be illiened to resulting the Vettag in the ACIM. The Members who have can their wire by remore E-vering prior to the AGM may greed the AGM

brough VCIOAVM, but shall not be emitted to east their vote again. No. person, who appears share of the Company A becomes murales of the Company offer to Expands of the Notice of AGM and halding sharm as on the cut-off-date i.e. Priday, 18" September 2023, should be flow the same proceeding of e-Visting as receit med in the Netice of the company; In case Members have any questes regarding remote a voting to voting during the AGM, they rus rofer the Fenguerity Asked Questions ("FAQs") and c-voting namual available a www.crostinginilin.com, under help-section or write an annual to help-look, evering it to billing in comor comuct Mr. Ninn Kunder (022-23038736) or Mr. Methodo Laidam (022-23038345) or M

Rightration of email addresses: The members of the Company, who have not yet registered in appliated their correct email address, are requested to register, update the email address immediately for review observance copies of the ACM Nation along with the Armod Rewart for the Sunneyal Co-2014-20 - Morahors with Physical Heiding. A signed scanned copy of request letter meeticsing the Name of shareholder. Fulls to: Email id, Mobile No., self-amoted copy, PAN, Audhau Canif and Shar estallicate (from and back), along with Cancelled Chaque may be very to the RTA/Company email at with Domat Holding: Register excul address in the domat account maintained with the depositor; participant. Further, wash everalter can temporately get the email address registered with the Company for elementing position of 20° AGM of the Company and the Americal Report for the Proceed Ven 2009-2 synderiting DP ID and Class ID (CDSL-16 skg) Remformly (D or NSDL-16 digit DPID + CLID) Subst. Copy of Cliefe Marter or Cornellidend Account Statutees and self-attented scanned copy of

EAN Card, Audhair Card and especified Cheque through email to Company/RTA E-mail to taistalenkit.com/ww//w/masindasca/cgmast.com/wspec#vely lotion is also bomby given flut parametta Section VI. of the Act and read with its rains, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saranday, 19" September 2008 to Friday, 25" September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AUM for the (insencial yea

For EMA India United Namita Sabharwal (Company Secretary)

Date: August 28, 2020 Place: Kanpur

M.No. A 35411

KG PETROCHEM LIMITED CIN: L24117RJ1980PLC001999 Registered Office: C-171, Road NO.9J, V.K.I. Area, Jaipur Rajasthan-302013

Email: jproffice21@bhavik.biz Website: www.kgpetro.in NOTICE OF AGM

Notice is hereby given that the 40th AGM of members of the company will be held on Monday, 21.09.2020 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the ordinary and special business as mention in the notice together with explanatory statement under Section 102 of the

The shareholders are hereby informed that the company has completed the dispatch of the above notice to their registered e-mail address registered with the company or D.P. or R.T.A. as the case may be

BOOK CLOSURE

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies Management and Administration Rules, 2014, the Register of Members and Shares Transfer Book of the company will remain close from 15.09.2020 to 21.09.2020 (Both days inclusive).

E-VOTING

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read with rule 20 of the Companies Management and Administration Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and SS-2 of General Meeting, the company is providing e-voting facility to its shareholders to cast their vote using an e-voting system in respect of all business to be transacted at the AGM through CDSL on all resolution set forth in the notice. Further shareholders are requested to take the note of the following-

a. The date of complication of dispatch of the aforesaid notice is 28.08.2020.

b. The remote e-voting period commence on 18.09.2020 at 10.00 A.M. and end on 20.09.2020 at 5.00 P.M. thereafter the remote e-voting facility shall be disable by CDSL for voting

 The cut-off date for the purpose of e-voting is on 14.09.2020. d. The facility for voting at the meeting shall be made available to only those

shareholders whose name are recorded in register of member or in the register of beneficiary owner maintain by depositories as on the cut-off date i.e. 14.09.2020.

 Investors who became members of the Company after the dispatch of the Notice and holds the shares as on the cut-off date i.e. 14.09.2020 are requested to send the written / email communication to the Company at jproffice21@bhavik.biz by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting.

The shareholders not casting their vote electronically, may only cast their vote at the Annual General Meeting through VC.

 The Shareholders, who have cast their vote by e-voting prior to the meeting, may attend the meeting through VC but shall not entitled to cast their vote again at the

The copy of the notice of 40th AGM and Annual report of the financial year 2019-

20 is available on the website of the company i.e. www.kgpetro.in. For electronic voting instruction shareholder may go through the instruction in

The Scrutinizer will submit, not later than 3 days of conclusion of the AGM, consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor or against, if any, to the Chairman of the Company or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith. The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.kgpetro.in and on the website of CDSL. The results

shall also be forwarded to BSE Limited. k. Mr. Sandeep Jain of M/s. ARMS and Associates LLP, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the e-voting process.

For KG Petrochem Limited

Akshita Pareek Company Secretary & Compliance Officer Place: NEW DELHI

Date: 28.08.2020



VASCON VASCON ENGINEERS LIMITED

CIN: L70100PN1986PLC175750

Registered and Corporate office: Vascon Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opposite Hyatt Hotel, Pune-Nagar Road, Pune - 411014. Tel.: +91 20 3056 2200, Fax: +91 20 30562600. E-mail: compliance.officer@vascon.com,

Website: www.vascon.com; www.bseindia.com;

www.nseindia.com

("AGM") of Vascon Engineers Limited ("Vascon") will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11:30 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of 35th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") the General Circular No. 14/2020 dated April 8.

35th ANNUAL GENERAL MEETING OF VASCON ENGINEERS LIMITED

Members are requested to note that the 35th Annual General Meeting

2020 and General Circular No 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as 'Circulars').

Electronic copies of the notice of the 35th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2019-20 will be sent to those Members whose email ID are registered with the Company/Depositories.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or at their email address: einward.ris@kfintech.com

The Company has enabled the members to temporary update their email address by addressing the link https://karisma.kfintech.com/emailreg/ registration.aspx for the limited purpose of receiving the Annual Report 2019-20 and the Notice of the 35th AGM (including e-voting instructions) electronically.

The Notice of 35th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at https://www.vascon.com/investors/annualreports on the website of the RTA at https://evoting.kfintech.com and on the website of BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/

The Company has fixed Tuesday, September 22, 2020 as the cut-off date for the purpose of determining the members eligible to vote on all resolutions set

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as part of notice of Annual report.

For Vascon Engineers Limited

Place : Pune Date : August 28, 2020

Vibhuti Dani Company Secretary

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office: 14, Rani Jhansi Road New Delhi-110055 Corporate office: 522, Fifth Floor, DLF Galleria Commercial Complex, DLF City Phase IV, Gurugram, Haryana-122009 CIN: L51909DL1984PLC019441 Email: info@cpil.com, cs@cpil.com | Website: www.cpil.com

The notice is hereby given that:

. The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Chandra Prabhu International Limited ("the Company") will be held on Monday, 21st September, 2020 at 11:00 A.M. (IST) via Video Conferencing("VC")facility/Other Audio Visual Means("OAVM") ONLY to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE

E-VOTING INFORMATON

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") dated 12th May, 2020, the Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for the F.Y 2019-20 on Friday, 28th August, 2020 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

Additionally, the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20, inter-alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 35th AGM is available on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

In Compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Companies Secretaries of India on General Meeting and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing "remote e-voting" and "evoting" facility to its Members before and during the AGM in respect of the Ordinary Business and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are

i. The instruction for participating through VC/OAVM and process of remote e-voting before or during the AGM including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting, are provided as part of Notice of the 35th AGM.

ii. The remote e-voting shall commence on Friday, September 18, 2020 at 9:00 am IST. iii. The remote e-voting shall end on Sunday, September 20, 2020 at 5:00 pm IST.

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the

AGM is September 14, 2020.

v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 14, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting system shall also be made available during the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositors as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/during the AGM.

vii. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the Depository through their Depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Limited, Jhandewalan, New Delhi-110055 at rta@alankit.com and;

viii.In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. In case of any clarification(s)/grievance(s) connected with the electronic voting, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994545.

Member who require any technical assistant before/during the AGM to access and participate in the meeting may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at pallavid@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994545.

5. Further the board of Directors of the Company appointed Mr. Krishna Kumar Singh proprietor of M/s KKS & Associates, Company Secretaries for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and Transparent Manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report shall be place on the website of the Company at www.cpil.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com.

Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2020 to Monday, September 21, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35[™]AGM. By order of the Board CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

6. Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Regulations, the

Sd/-(GAJRAJ JAIN)

CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR DIN-00049199 **NUTECH GLOBAL LIMITED**

(Rs. in Lacs, except as stated)

Director

DIN: 00507367

Quarter Ended

Year Ended

REGD. OFFICE- E-149, RIICO INDUSTRIAL AREA, BHILWARA-311001, (RAJASTHAN)
TEL NO.- +91 1482 260508, E-MAIL ID: info@nutechglobal.com, WEBSITE: www.nutechglobal.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2020

555		Action to 1 miles on 1 miles on 1 miles		
lo.	Particulars	Unaudited	Not subject to review/au	
		30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020
+00	Total Income from Operations (Net)	34.19	867.45	3621.62
20	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.97	-10.27
	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.97	-10.27
150	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.67	1.70	-7.71
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-47.67	1.70	-7.71
26	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	320.37	320.37	320.37
,	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.	12		386.14
	Earning Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)- 1.Basic 2. Diluted	-1.49	0.05	-0.24

 The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audi
Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 28th August, 2020. . The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly ended Financial Results is available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and or the company's website, www.nutechglobal.com. By the order of the Board Rajeev Mukhija

Date: 28.08.2020 Place : Bhilwara

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

DDA BUILDING, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. a Demand Notice dated 05.06.2020, calling upon the Borrowers: issued a Demand Notice dated 05.06.2020, calling upon the MR. VEERENDRA MISHRA S/O. SH. RAMESH CHAND MISHRA Borrowers: MR. VINAY S/O. SH. VED PRAKASH AND MR. MRS. SANTOSH W/O. SH. RAMESH CHAND MISHRA AND SUDHIR KUMAR S/O. MR. VINAY & GUARANTORS NAMELY GUARANTORS NAMELY JOHNEY SAHNI S/O. VED PRAKASH NAVEEN VOHRA S/O. NARENDRA KUMAR VOHRA, to repay the SAHNI, to repay the amount mentioned in notice being amount mentioned in notice being Rs.38,74,590/- (Rupees Thirty Rs.29,39,681/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand Eight Lakhs Seventy Four Thousand Five Hundred Ninety Only) Six Hundred Eighty One Only) within 60 days from the date of

borrowers, guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property of the property described herein below in exercise of powers conferred described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 26.08.2020. The subject to the charge of Central Bank of India, Defence Colony New Delhi Branch, for an amount of Rs.38,74,590/- (Rupees

property bearing No.S-3/85, having Plot No.D-36, situated in the area of Village Nangli Jalib, Colony known as Old Mahavir Nagar New Delhi-110018 standing in the name of Mr. Vinay S/o. Sh. Ved Old Mahavir Nagar, New Delhi standing in the name of Smt. Santosh Prakash. Details of the Property bounded as under:-On the North by: Other's Property

On the East by: Road 20 Ft. On the West by: Portion of the Property

PLACE: NEW DELHI

DATE: 26.08.2020

Other Equity

Place: New Delhi

Date: 28.08,2020

a) Basic

Central Bank of India

BRAITHWAITE & CO. LIMITED (A Govt. of India Undertaking) 5. Hide Road, Kolkata - 700 043

Tender No. BCL / PUR/CAPEX/Weigh Bridge /AW/ 2020

Sealed Tenders are invited in Two bid system for Supply, Installation & Commissioning of 1 no. 60 T new pit less type Weigh Bridge and revamping of existing 1 no. 20 ton Weigh Bridge in Angus Works of BCL as per tender conditions. Last date of sale & submission of tender is 21 days,

from the date of publication (both days inclusive).

Interested parties may collect the tender document from Purchase Dept., Braithwalte & Co. Ltd., 5 Hide Road, Kolkata on all working days from 10.00 hrs to 14.30 hrs against payment of Rs.250/- (non refundable) by Bank Draft / Pay Order in favour of "Braithwaite & Co. Ltd", payable at Kolkata, towards cost of tender document, Bidders who are registered with NSIC / MSME etc. for the tendered job are exempted from submission of cost of tender document. Tender documents can also be downloaded from our website www.braithwaiteindia.com and offer can be submitted as per tender conditions.

All TCNs & Corrigendum etc. will be notified in our website www.braithwaiteindia.com only. Dy. Manager (Purchase)

सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 BRANCH OFFICE: 28-C, MOOLCHAND SHOPPING COMPLEX

DDA BUILDING, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
Appendix -IV [See Rule – 8(1)]

CENTRAL BANK OF INDIA, Defence Colony, New Delhi Branch.

under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and

receipt of the said notice. The borrowers, guarantors having failed to

repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors

and the public in general that the undersigned has taken possession

on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the

Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 26.08.2020.

The borrowers in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealing with the

property will be subject to the charge of Central Bank of India,

Defence Colony, New Delhi Branch, for an amount of

Rs.29,39,681/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Nine Thousand

Six Hundred Eighty One Only) as on 05.06.2020 and

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section

(8) of Section (13) of the Act, in respect of time available, to

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Equitable Mortgage of property i.e. Ground Floor without Roof

Terrace Rights, built on back side portion of free hold built up property

bearing No.D-36, having new No.S-3/85, area measuring 65

Sq.vards, out of Khasra No.25, situated in the area of Village Nangli

Jalab and the colony known as New Mahavir Nagar now known as

vinereas, the undersigned being the Authorized Officer of

Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्डिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 BRANCH OFFICE: 28-C, MOOLCHAND SHOPPING COMPLEX,

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix -IV [See Rule – 8(1)]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of th CENTRAL BANK OF INDIA, Defence Colony, New Delhi Branch within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be Thirty Eight Lakhs Seventy Four Thousand Five Hundred Ninety Only) as on 05.06.2020 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY**

Equitable Mortgage of property i.e. Third Floor with Roof / Terrace Rights, built on Land area measuring 85 Sq.yards of built up

On the South by: Other's Property

Authorised Officer.

Paramount Communications Limited

On the North by: Other's Property On the South by: Other's Property On the East by: Remaining portion of said property On the West by: Road 10 ft wide **PLACE: NEW DELHI** Authorised Officer,

Regd. Office: C-125 Naraina Industrial Area, Phase-1, Naraina, New Delhi-110 028 Phone: 91-11-45618800; Fax: 91-11-25893719-20; Web: www.paramountcables.com CIN: L74899DL1994PLC061295

Central Bank of India

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2020 (Rs. in Lakhs)

interest thereon.

DATE: 26.08.2020

redeem the secured assets.

W/o. Sh. Ramesh Chander Mishra.

Details of the Property bounded as under:-

STANDALONE CONSOLIDATED **Particulars** Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited 8,501.52 13,374.93 15,221.03 60,620.30 8,501.52 13,374.93 15,221.03 60,620.30 Total income from operations Profit/(Loss) from ordinary activities after finance costs but 2,634.67 500.55 662.00 2,634.67 (160.95)500.55 662.00 (160.95)before exceptional items Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (160.95)500.55 662.00 2,634.67 (160.95)500.55 662.00 2,634,67 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (160.95)500.55 662.00 2.634.67 (160.95)500.55 662.00 2,634.67 (5.23)(21.57)0.21 (20.92)(5.23)(21.57)0.21 (20.92)Other comprehensive income/(loss) Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (Loss) and (166.18)478.98 (166.18)478.98 662.21 2,613.75 662.21 2,613.75 other comprehensive income for the period) Paid up Equity Share Capital (Rs. 2/- Per Equity Share) 3,682.68 3,682.68 3,435.68 3,682.68 3,682.68 3,682.68 3,435.68 3,682.68 14,531.73 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (Not Annualised):

0.39

1.53

(0.09)

(0.09)0.29 0.39 1.52 (0.09)0.29 1.52 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30" June, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results are available on company's website at www.paramountcables.com and the stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com

0.29

(0.09)

By and on behalf of the Board

For PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD.

0.39

1,53

Sanjay Aggarwal

DIN:00001788

(Chairman & CEO)

0.29

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.

1, Saket, Meerut - 250 003 Ph.: 0121-2648151, 2648152 e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com website: www.djrl.org.in

Rs in Lacs Except per Share figure

SL. NO.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		30.06.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	30.06.2019 Unaudited	31.03.2020 Audited	
1	Total Income from Operations	130	468	478	1,827	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(32)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(32)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(26)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(81)	(15)	23	(26)	
6	Equity Share Capital	410	410	410	410	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	549	630	680	630	
8	Earning per share (40,98,400 Equity Shares of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	(1.99) (1.99)	(0.37) (0.37)	0.56 0.56	(0.64) (0.64)	

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 30th June 2020, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the guarter ended 30.06.2020 financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.djrl.org.in)

The above results were approved by the Audit Committee of Directors, reviewed of the Statutory Auditors of the Company and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 28.08.2020.

> of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd. (P.S. Kashyap)

For and on behalf of Board of Directors

Date: 28.08.2020

Place : Meerut

New Delhi

Din: 01664811 Chairman

financiale

Place: Jaipur

the notice of meeting.

Date: 26.08.2020

दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित विजीव परिणामों पर परस्पर विचार के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक 10.09.2020 को होगी। सचना कम्पनी की वेबसाइट तथा शेयर वाजार वेबसाइट www.bseindia.com

कते नोवा आयरन एण्ड स्टील लि ह./- धीरज कुमार कम्पनी सचिव

कार्यालय- निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर। अल्बर्टहाल परिसर, रामनिवास बाग, जयपुर दूरभाष सं. 0141-2820360 (ईमेल- dirarchraj@gmail.com) क्रमांक: प्.सं./अ.अ./2020/8468 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस विभाग के अधीन निम्नांकित यू.बी.एन. नम्बर के कार्यों हेतु राज्य सरकार

राजकीय उपकर्मों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ केन्द्र सरकार/ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से संबंधित कार्य हेर् नियमानुसार सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों/ फर्मों से ई-बोली प्रक्रिया से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in प ऑनलाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in वेभागीय वेबसाईट http://museumsrajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है-

AMD2021A0013

DIPR/C/6802/2020

ICICI **ICICI Prudential Asset Management Company Limited** PRUDENTIAL MUTUAL FUND

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)

NOTICE is hereby given that the Scheme wise Annual Report and the Abridged Annual Report of the schemes of the Fund for the financial year ended March 31, 2020 have been hosted on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com, in accordance with Regulation 54 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/ CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018.

Investors may accordingly view/download the reports from the website of the AMC. Investors can also request for the physical copy of Annual Report or Abridged summary

- 1. Give a call at our Contact Centre at:
 - MTNL/BSNL: 1800 222 999
- 2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
- 3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, details available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

As some of our branches may be non-operational due to current situation on account of COVID 19 pandemic, Investors are requested to check the status of the branch by contacting our aforesaid customer care helplines.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Date: August 28, 2020

Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

and mobile number to support paper-less communications.

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

read all scheme related documents carefully.

बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड

पंजीकृत कर्यालय : एस-1ए, भू-तल, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 फोन: 011-45803300 | मोबाईल +91 9811876512 | ई-मेल: info@bestagrolife.com वेबसाईट : www.bestagrolife.com

वीसी/ओएवीएम एजीएम की सुचना में वर्णित व्यापार का लेन-देन करने के लिए सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 12,30(भा.स.अ.) वर्ज स्चित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण, कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलय ('एमसीए परिपत्रों') द्वार

प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 व उसके अंतर्गत बने नियमो के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्ञल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

वेबसाइट www.bestagrolife.com, स्टॉक एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एजीएम की सुचना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं अर्थात् www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित व भाग ले सकते हैं जिसका विवरण बैठक की सुचना में कंपनी द्वारा दिया

जाएगा। इसके अनुसार, कृपया थयान दें कि कोविड-19 के संबंध में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी की 29वीं एजीएम मे व्यक्ति द्वारा उपस्थित और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गिनती कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।

('रजिस्ट्रार')/डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी। जिन सदस्यों के ई-मेल पते अभी तक रिजस्टर नहीं हैं, उनसे ई-मेल पता, बैंक अनिवार्यता और मोबाइल नं. अपडेट

भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अपनी धारिता को डिमेट फॉर्म में परिवर्तित कराने का अनरोध किया जाता है क्योंकि सेबी द्वारा भौतिक फॉर्म में शेयर के हस्तांतरण प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे निम्नलिखित सूचना देते हुए रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट - मैसर्स फारनेंशियल मुर्तिमेन पारवेट लिमिटेन कंपनी के माथ अपने ।) ई-मेल आईडी और 2) बैंक अनिवार्यता रजिस्टर/अपनेट कराने का अनुरोध किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	विस्तार
1	नाम	
2	फोलियो नंबर	Q.
3	ईमेल आईडी	e-
4	आईएफएससी व एमआईसीआर नं. के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित पास बुक या कैंसल चैक की मूल/स्कैनड कॉपी	
		<u> </u>

ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। जिन सदस्यों ने इलैक्टानिक क्लीयरिंग सर्विस या अन्य माध्यम द्वारा अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खातों का विवरण

अपडेट नहीं किया है, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें :

कंपनी के रजिस्ट्रार, मैसर्स स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को info@skylinerta.com, शेयरपूजीं admin@skylinerta.com/ virenr@skylinerta.com पर 15 सितंबर, 2020 तक निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैनड कॉपी भेजें।

- बैंक का नाम व शाखा व बैंक खाते का टाइप कोर बैंकिंग सोल्युशन्स के पुरा हो जाने के बाद अपने बैंक द्वारा दिया गया बैंक खाता संख्या व टाइप
- पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति और

पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति

शेयरपूर्जी

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से संबंधित डीपी के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कराने का अनरोध किया जाता है।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुपालन में, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से सदस्यों द्वारा कर योग्य होगी और कंपनी आय कर अधिनियम, 1961 (आईटी एक्ट) में निर्धारित दरों पर सदस्यों को चकता किए जाने वाले लाभांश से स्त्रोत ('टीडीएस') में कटौती करेगी। साधारण शब्दों में, टीडीएस आवश्यकताओं को परा करने के लिए, सदस्यों से अपने डीपी के साथ या कंपनी/रजिस्टार के साथ भौतिक रूप में शेयर रखने पर, ई-मेल द्वारा दस्तावेज भेजकर 15 सितंबर, 2020 तक आईटी एक्ट के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, श्रेणी अपडेट और/या पुरा करने का अनुरोध किया जाता है। इसकी पुरी प्रक्रिया

किसी भी पूछताछ के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए शेयरधारक और ई-वोटिंग युजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4वीं मॉजिल, कमला मिल्स, कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लॉअर परेल, मुबंई-400013 से निर्धारित ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in;k टेलीफोन नं. +91-22-2499 4360 पर संपर्क करें जो इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से जुडी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी के ई-मेल info@bestagrolife.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

ई-बोटिंग

एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपने बोट डालने वाले सदस्य बीसी/ओएबीएम के द्वारा एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा बोट डालने के पात्र नहीं होंगे। वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य और इं-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं और वोट डालने के लिए बाधित नहीं हैं. एजीएम के दौरान बोट डाल सकते हैं।

एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और शेयर प्राप्त करने वाले व्यक्ति और कट-ऑफ डेट तक शेयर रखने वाले ही e-voting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति मौजुदा युजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

एजीएम के दौरान अपने विचार या प्रश्न पूछने के इच्छ्क सदस्य 21 सितंबर, 2020 (सुबह 9.00) से 25 सितंबर, 2020 (शाम 5.00) तक info@bestagrolife.com पर अपना नाम, डीपी आईडी व क्लाइंट आईडी/फोलियो नं., पैन नं., मोबाइल नं. वर्णित करते हुए पंजीकृत ई-मेल आईडी से अपना अनुरोध भेजकर बक्ता के रूप में स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। स्वयं को रजिस्टर कराने वाले सदस्यों को ही एजीएम के समय बोलने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी को एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का पर्ण अधिकार है।

वक क्लोजर

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर व शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं एजीएम के उद्देश्य और 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्किटी शेयरों पर ऑतिम लाभांश के भूगतान के लिए मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 से सोमवार, 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। एजीएम में ऑतम लाभांश, यदि घोषित होता है, 29 सितंबर, 2020 तक या उसके बाद चुकता किया जाएगा। कट-ऑफ डेट 21 सितंबर, 2020 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में नाम प्रदर्शित होने वाले सदस्य को ही इसका भगतान किया जाएगा। कते बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड

कंपनी सचिव व अनपालन अधिकारी

इंडिया' प्रदर्शनी अगले साल फरवरी में

Fruition Venture Limited CIN No: L74899DL1994PLC058824

Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi- 110 009 Email id: csfruitionventure@gmail.com; website: www.fvl.co.in NOTICE TO THE MEMBERS OF THE FRUITION VENTURE

LIMITED FOR 26th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK

CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the company will be convened on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:00 AM through VC/OAVM in accordance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and MCA Circular No 7/2020 dated April 13, 2020 and MCA Circular No. 20/2020 dated May 2020 read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May 2020 without the Physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the company for convening AGM.

The Notice of the company for convening AGM and the Annual Report including the financial Statements for the Financial Year ended 31st March ,2020 along with the login details of joining the AGM will be sent only by email to all those members on 3rd September, 2020, whose email ID 's are registered with the companies or its Registrar and Share Transfer Agent and with respective Depository Participants in accordance with MCA circular and SEBI Circular. Members can join and participate AGM through VC/OAVM only. The instruction of joining the AGM and the manne of participation in the remote electronic voting are provided in the Notice of the AGM. The attendance of the members attending the AGM through /C/OAVM will be counted for the purpose of ascertaing the quorum under under section 103 of the Companies Act 2013. Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the company at www.fvl.co.in and on the website of Stock exchanges.

Members whose email addresses are not registered with depositories can register the same for obtaining login credentials for e- voting for resolutions proposed in the Notice of the Fruition Venture Limited for Conducting the 26th Annual General Meeting in the following manner:

For Physical Shareholders - Please provide necessary details like Folio no name of member, scanned copy of the share certificate, PAN, AADHAR by email to RTA email id: investor.services@rcmcdelhi.com or to company on csfruitionventure@gmail.com.

For Demat Shareholders - Please provide Demat Account details like CDSL 16 Digit beneficiary ID or NSDL 16 Digit DPID +CLID , name, client master, or copy of consolidated account statements PAN, AADHAR, by

email to depository or RTA. The Company /RTA shall coordinate with the depositories and provide the login credentials to the above mentioned shareholders.

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 26th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 26th AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any query regarding e-voting, Members may contact NSDL a

1800-222-990 or send request at evoting@nsdl.co.in or write an e-mail to Compliance Officer of the Company at csfruitionventure@gmail.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and

he applicable Rules there under, that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company shall remain closed from 23rd September, 2020 to 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company. Date of completion of sending of notices on email: 3rd September, 2020. Date and time of commencement of voting through electronic means: 26th September, 2020 (10:00 a.m. IST)

Date and time of end of voting through electronic means: 29th September, 2020 (5.00 p.m. IST)

> For and on behalf of Fruition Venture Limited

Place: New Delhi Date: 29th August, 2020

vww.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें।

केन्द्रीय भंडारगृह, हनुमानगद-2 (राजस्थान), पर 2,500

मीं व्टन अतिरिक्त क्षमता के गोदाम, आंतरिक सबकों के

निर्माण एवं विद्युत कार्य इंस्टाल कराने से सम्बन्धित कार्य।

केन्द्रीय भंडारगृह, भरतपुर (राजस्थान), पर टीन शेंड हटाकर

3.800 मी०टन अतिरिक्त क्षमता के गोदाम, आंतरिक सडको के

केन्द्रीय भंडारगृह, कोटपुतली (राजस्थान), पर एम-४० पेवर

निर्माण एवं विद्युत कार्य इंस्टाल कराने से सम्बन्धित कार्य।

इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन

लिमिटेड अल्पकालीन निविदा सूचना

इलेक्ट्रॉनिक निविदा निम्नलिखित कार्यों

हेतु दो भागों में अलग-अलग ई-टेण्डर

योग्य फर्मों से निम्नांकित विवरणानुसार

धरोहर राशि व निविदा लागत सहित

आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से

संबंधित समस्त अभिलेख एवम् शर्तें ई-

दिनांक 05.08.2020 से 14.09.2020

को 09.00 बजे तक डाउनलोड किये

जा सकेंगे। यदि निविदा खुलने का

दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा

अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित

अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार

सुरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा

को या सभी निविदाओं को बिना किसी

कारण बताये अस्वीकार/ निरस्त कर

सकते हैं। क्र.सं.: 1 निविदा संख्याः E-

T-06/20-21 कार्य का संक्षिप्त

विवरणः वि.पा.खं. फतेहपुर के अधीन

132 के.वी. उपकेन्द्र मलवां में 145

के.वी. सर्किट ब्रेकर की प्रतिस्थापना

का कार्य। धरोहर राशिः 1000/-

निविदा अपलोड करने का दिनांक-

कब से 05.08.2020 कब तक

14.09.2020 निविदा खुलने का

दिनांकः 14.09.2020 ''राष्ट्रहित में

अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण

1165/वि.प.ख.(फ)/टेन्डर

दिनांक- 28.8.2020

हस्ता./-

पत्रांक

नोटिस

बिजली

खण्ड-

खोली

www.etender.up.nic.in

ब्लॉक सड़क बनाने से सम्बन्धित कार्य।

कार्य का नाम

जन जन के लिए भण्डारण

टेण्डर

कॉनकॉर CONCOR

Sanhit Jain Managing Director भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

सार्वजनिक नीलामी / निविदा सूचना

ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए /

अदावाकृत आयातित/आंतरिक क्षतिग्रस्त कंटेनर/ कार्गों का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,एरिया—1 (उत्तरी), के उन कंटेनरों पर या 30.06.2020 से पहले एरिया—

उत्तरी) के टर्मिनलो पर पड़े रदी वस्तुओ, खाली पड़े आंतरिक क्षतिग्रस्त कंटेनरो और अदावाकृत / विलयर र

केये गए आयातित / आंतरिक-कंटेनर / कार्गों की ई-नीलामी के माध्यम से 08.09.2020, 19.09.2020

30.09,2020 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करेगा। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ती एवं काग

व www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातको जिनमे सरकारी उपक्रम / विमाग भी

॥मिल हैं के कंटेनर / सामान किसी विवाद, न्यायालय / अधिकरणों / अन्यो द्वारा दिये गए स्थमन के कारण

। ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत / क्लीयर न किए गए पडे हैं औ

|बसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, एरिया-I (उत्तरी

कॉनकोर, और संबन्धित,कमिश्नरेट— सीमा शुल्क , आयुक्त — सीमा शुल्क को तदनुसार सूचित कर सकते i

और इस सूचना के 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपातियाँ

दावें दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की **"जैसा है जहां है के**

आधार पर* नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in ए

THINK CONTAINER THINK CONCOR

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट कार्यालय, 4/1, सिरी इंस्टीटबूशनल एरिया,

अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली

ई-निविदा आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है:

अनुबंध की शर्तें और ई-टैण्डर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत टैण्डर सूचना निगम की वेबसाइर

www.cewacor.nic.in या ई-टैण्डर वेबसाइट www.cwceprocur.com अथवा सीपीपी पोर्टल

http://eprocure.gov.in/epublish/app से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, इस

टैप्प्डर सम्बन्धी यदि कोई शुद्धिपत्र / परिशिष्ट होगा तो यह केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रकाशित होगा

पोर्टल

विवरण 29.08.2020, 09.09.2020 & 20.09.2020 से www.concorindia.co.ii

Container Corporation of India Ltd.

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking Govt. of India)

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

एशिया की सबसे बड़ी एअरोस्पेस प्रदर्शनी 'एअरो इंडिया' का अगला आयोजन उसके परंपरागत स्थल बंगलुरु में अगले वर्ष 3-5 फरवरी के बीच कराने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से रक्षा मंत्रालय ने ले लिया है। आधिकारिक सुत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

सुत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने इस द्विवार्षिक आयोजन को तय

SKYLINE INDIA LIMITED Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055

Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110 CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

ursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Monday 07thSeptember 2020, at 02:00 P.M. at the registered office of the company inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review report of the Company for the Quarter ended June 30, 2020, and the ing of an application with the concerned Registrar of Companies for xtending the last date of holding the AGM for a period of 3 months and also the appointment of secretarial auditor and internal auditor. The said Notice may be accessed on the Company's website a http://www.skylineindia.co.in and may also be accessed on the Stock

Exchange websites at https://www.msei.in Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" which would end 48 hours after the results are made public on 07th September 2020. For Skyline India Limited

Date: 27.08.2020

(Dinesh Kumar Shindi) Company Secretary & Compliance Officer



दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. दिल्ली सरकार कार्यकारी अभियंता का कार्यालय, सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी–10, डी.यू.एस.आई.बी. इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्यों के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित/ पुनः आमंत्रित करते हैं:

(1) एनआईटी संख्याः 09/EEC-10/DUSIB/2020-21 Tender No. 2020 DUSIB 193801 कार्य का नाम: कटरा निवासियों की इमारत का जीर्णोद्धार व पुनर्वास उप शीर्षः विधान सभा क्षेत्र संख्या- 19 सदर बाजार में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की परिसम्पत्ति संख्य

3357-58 वार्ड 13 के जीर्णोद्धार का कार्य। अनुमानित लागतः Rs. 29,49,362.00

निविदा मूल्य : Rs. 500.00

निविदा प्रस्तृत करने हेत् अंतिम तिथि व समयः 10.09.2020 के 15.00 बजे तक निविदा खोलने की तिथि 10.09.2020 के 15.30 बजे के बाद निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट https://eprocurement.delhi.gov.in से प्रार

सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा

DIP/Shabdarth/0264/20-21

कार्यकारी निदेशक.

एरिया 1 (उत्तरी)

दिनांकः 25.08.2020

मेजने एवं खोलने

की अंतिम तिथि

19.09.2020

19.09.2020

19.09.2020

अधिशासी अभियंता

अनुमानित निविदाएं ऑनलाइन

लागत (लाख

134.89

240.46

कार्यकारी अभियन्त सी-10, डी.यू.एस.आई.बी.

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेंड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन निम्नलिखित

कार्यों हेत् आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं : निविदा सं. टी20पी122224: 400

केवी बमनौली सब स्टेशन में 400 केवी लाइनों की स्टब्स, चिमनी की मरम्मत एवं चिमनी की

ऊंचाई को बढ़ाना। निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 21.09.2020 को 1.00 बजे

विस्तृत जानकारी और निविदा डाउनलोड़ करने हेतु दिल्ली सरकार की वेबसाइट

https://govtprocurement.delhi.gov.in निविदा आईडी न

No.2020 DTL 193665 1 और डीटीएल वेबसाइट www.dtl.gov.in युनिक नं

उपरोक्त निविदाओं हेतु कोई भी शुद्धिपत्रा/सुधार आदि अगर जारी किया गया तो उसे सिर्फ उपरोक्त वेबसाइटी पर डाला जाएगा।

धरोहर राशिः Rs. 59,000.00

कार्य अवधिः 120 Days

समय पर कराने का निर्णय घरेलू रक्षा उद्योग और वैश्विक एअरोस्पेस कंपनियों से बातचीत के बाद लिया। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन की मेजबानी करने के मुद्दे पर पहले ही कई बैठकें की हैं। एक सूत्र ने बताया कि यह निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के प्रति अधिकतम सावधानी बरतते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एअरो इंडिया की शुरुआत 1996 में बंगलुरु में की गई थी और तभी से वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि एअरो इंडिया में कई बड़ी वैश्विक रक्षा कंपनियों और निवेशकों के आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने टीवी कार्यक्रम के प्रसारण पर पूर्व रोक लगाने से इनकार किया

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सदर्शन टीवी के 'बिंदास बोल' कार्यक्रम पर प्रसारण-पूर्व प्रतिबंध कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। लगाने से इनकार कर दिया। इस कार्यक्रम के नए प्रोमो में दावा किया गया है कि चैनल 'सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक संख्या में शामिल करने

की साजिश का खुलासा करोगा। न्यायमा ति डीवाई चंद्रचुड़ और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा

कि विचारों के प्रसारण या प्रकाशन पर पर्व प्रतिबंध लगाने से पहले

चौकस होना होगा। इससे पहले.

दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हमने 49 सेकेंड के असत्यापित प्रतिलेखन के आधार पर प्रसारण-पूर्व निषेध लागू करने से परहेज किया है। न्यायालय को प्रकाशन या विचारों के प्रसारण पर पूर्व प्रतिबंध लगाने में चौकस होना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज को फिरोज इकबाल खान नामक एक वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

कर्नाटक में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाने पर तनाव

बेलगावी (कर्नाटक), 28 अगस्त (भाषा)।

कर्नाटक के सीमावर्ती बेलगावी जिले के एक गांव में 18वीं शताब्दी के योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर समाज के एक वर्ग की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद शुक्रवार को गांव में तनाव फैल गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रायन्ना के कुछ प्रशंसकों ने गुरुवार की देर

रात पीरनवाडी में एक चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की। खबर फैलते ही अन्य लोगों के एक वर्ग ने आपत्ति जताई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मोटे तौर पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग उस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने के विरोध में हैं, जहां वे मराठा शासक शिवाजी की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, जिनके नाम पर उस गोलंबर का नाम रखा गया है।

Office of the Addl. Chief Engineer, PHED, Region Bharatpur

Addendum No. 01, NIT No. 12 & 13/2020-21 Following amendment in this office NIT No. 12 & 13/2020-21 are made as follows: Activity 12 & 13/2020-21 Previous

Availability of Bid Document Up to 24.08.2020 (6.00 PM) Up to 07.09.2020 (6.00 PM) Last date & time for Up to 24.08.2020 (6.00 PM) Up to 07.09.2020 (6.00 PM) downloading of Bid document Last date & time for online Up to 24.08.2020 (6.00 PM) Up to 07.09.2020 (6.00 PM) submission of Bid Online Opening of Pre-08.09.2020 (11.30 AM) 25.08.2020 (11.30 AM) Qualification T Bid All other terms and conditions shall be remain same as mentioned in original NIT.

UBN No.: PHE2021WSRC04388 (Mukul Bhargava) PHE2021WSRC04391 Addl. Chief Engineer DIPR/C/6768/2020 PHED, Region Bharatpur

> W CyberMedia CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

CIN: L92114DL1982PLC014334 Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-2649 1320 Corp. Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana. Tel.: 0124-4822 222

Email: investorcare@cybermedia.co.in Website: www.cybermedia.co.in

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 10th day of September, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results, standalone and consolidated, of the Company for the quarter ended June 30, 2020. The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. By Order of the Board

Place: Gurugram Date: August 28, 2020

Anoop Singh Company Secretary

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार के समझ **बेत्रीय निदेशक, उत्तरी बेत्र**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

मैसर्स आईआईवी इंडिया रजिस्टर्ड वैल्युअर्स फाउंडेशन

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1/4701, दूसरी मंजिल, बलबीर नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110032 में स्थित है, आवेदक कंपनी/वाचिकाकर्ता लद्वारा सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा

राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के सम्बन्ध में 01.07.2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपधपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ निवेशक शिकायत प्रयत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर

इसका पंजीकृत कार्यातय "रा.रा.झे, दिल्ली" से "महाराष्ट्र

सुपूर्व कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पता बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यायरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के बौदह दिनों के भीतर सुपूर्व करवा सकता है अथवा पंजीकृत ढाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी

1/4701, दूसरी मंजिल, बलबीर नगर एक्सटेंशन, शाहदरा,

मैससं प्राईआईवी इंडिया रजिस्टर्ड वैल्यूअसं फाउंडेशन अंजुम अमीन शेख

दिनांकः २९ अगस्त २०२० स्थानः नई दिल्ली डीआईएन: 07650342

JEEVAN REKHA LTD.

Ph.: 0121-2648151, 2648152 e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com website: www.djrl.org.in

1, Saket, Meerut - 250 003

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 2020

SL. NO.	PARTICULARS	Rs. in Lacs Except per Quarter Ended			0.0000000000000000000000000000000000000
SL. NO.	PARTICULARS	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	Year Ended 31.03.2020 Audited
		Unaudited	Audited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	130	468	478	1,827
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(32)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(32)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(81)	(15)	23	(26)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(81)	(15)	23	(26)
6	Equity Share Capital	410	410	410	410
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	549	630	680	630
8	Earning per share (40,98,400 Equity Shares of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	(1.99) (1.99)	(0.37) (0.37)	0.56 0.56	(0.64) (0.64)

 The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 30th June 2020, filed with (www.bseindia.com) and on the company's website (www.djrl.org.in)

and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 28.08.2020.

of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd. Sd/-(P.S. Kashyap) Din: 01664811

Place : Meerut Date: 28.08.2020

Notes:

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the guarter ended 30.06.2020 financial results are available on the Stock Exchange website The above results were approved by the Audit Committee of Directors, reviewed of the Statutory Auditors of the Company

For and on behalf of Board of Directors

Chairman

www.readwhere.com

विनांक: 28 अगस्त, 2020

स्थान: विल्ली

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Scheme wise Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of the Fund

through any of the following modes:

• Others: 1800 200 6666

Place : Mumbai

No. 013/08/2020

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Mutual Fund investments are subject to market risks,

CIN: L74110DL1992PLC116773

29वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी व बुक क्लोज़र आदि की सूचना मैसर्स बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ('कंपनी') की 29वीं एजीएम नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा दी गई सुविधा द्वारा

जारी क्रमश: सामान्य परिपन्न दिनांक 8, अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपन्न दिनांक 5 मई, 2020 और भारतीय एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट सहित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट की ई-प्रति कंपनी की

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सुचना इलैक्ट्रानिक रूप में उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल कंपनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट

क्र.सं.	विवरण	विस्तार
1	नाम	
2	फोलियो नंबर	œ.
3	र्दमेल आईडी	

कंपनी ने एजीएम की सचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने बोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के द्वारा वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। एजीएम से पहले रिमोट

आपका नाम, फोलियो नंबर, परे पते के साथ एक हस्ताक्षरित अनरोध पत्र और लाभांश प्राप्त किए जाने वाले बैंक खाते से संबंधित

संयुक्त धारिता के मामले में, पहले धारक या सदस्य के नाम वाले कैंसल चैक की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति

कंपनी के साथ पंजीकृत अनुसार सदस्य के पते के लिए कोई दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान कार्ड, डी)

कंपनी की वेबसाइटwww.bestagrolife.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पंटित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा दी गई रिमोट ई-बोटिंग द्वारा एजीएम की सुचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा दी गई है। रिमोट ई-बोटिंग गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 27 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलैक्टानिक रूप से अपने बोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग मॉडयल इसके बाद एनएसडीएल द्वारा बोटिंग के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कट-ऑफ-डेट अर्थात् सोमवार, 21 सितंबर, 2020 तक कंपनी के सदस्य ही वोट डालने के पात्र होंगे।

हिमांशी नेगी